



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001
ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक/2561/ परीक्षा-गोपनीय/2021
प्रति,

दिनांक 27 MAY 2021

प्राचार्य,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- परीक्षार्थियों को ऑनलाईन उत्तरपुस्तिका के आवरण एवं अन्य पृष्ठ को महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

वार्षिक परीक्षा 2020-21 की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 2553 बिलासपुर दिनांक 22 मई 2021 द्वारा दिनांक 01.06.2021 से प्रारंभ हो रही है। परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका के आवरण पृष्ठ एवं शेष अन्य पृष्ठों के प्रतिदर्श रूप को, विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in के होम पेज को ओपन करते हुये, डाउनलोड आंसर शीट लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकता है। उत्तरपुस्तिकाओं के मुख्य एवं द्वितीय पृष्ठ को महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

Harley 27/5/21

परीक्षा नियंत्रक
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. उत्तर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ सहित पृष्ठों की कुल संख्या 32 होगी।
2. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये निर्धारित जगह पर अपना अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक एवं अन्य जानकारियाँ सावधानीपूर्वक स्पष्ट अक्षरों में सही-सही लिखें।
3. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के भीतरी भाग को खाली छोड़ दें एवं नये पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नये पृष्ठ से लिखना प्रारंभ करें।
4. मानचित्रों/रेखाचित्रों/उत्तर का सचित्र वर्णन को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शीली या काली स्याही के बाल पेन का ही प्रयोग करें।
5. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक के अलावा कुछ भी न लिखें एवं रक-कार्य न करें।
6. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखने में पृष्ठों का गैप न करें। उत्तर लिखने के बाद बचे रिकत पृष्ठों को एक तिरछी लाईन खींचकर निरस्त कर दें।
7. लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थी महाविद्यालय में उत्तरपुस्तिका जमा करने के पूर्व मुख्य पृष्ठ पर भरी गयी जानकारियों जैसे अनुक्रमांक/नामांकन क्रमांक/विषय/प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का नाम आदि की जांच अवश्य कर लें।
8. परीक्षार्थी को पूरक उत्तरपुस्तिका संलग्न करने की अनुमति नहीं है।
9. परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के पश्चात् निर्धारित समयावधि तक उत्तरपुस्तिका महाविद्यालय में जमा कर सकेंगा।
10. परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका की स्कैन प्रति महाविद्यालय के ई-मेल पर प्रेषित कर सकता है, किन्तु इसके पश्चात् उत्तरपुस्तिका की हार्डकोपी महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा
 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस उत्तरपुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर भरे द्वारा निर्धारित समयावधि में लिखे गये हैं, अन्यथा की स्थिति में भरे विरुद्ध विश्वविद्यालय/शासन/यू.जी.सी. के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती जो मुझे स्वीकार्य होगा।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
 एवं दिनांक

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर की मुहर/दिनांक सहित

परीक्षा का नाम

अनुक्रमांक Roll No. (अंको में)									
अनुक्रमांक Roll No. (शब्दों में)									

नामांकन क्रमांक (Enrollment No.) :-

विषय :-..... प्रश्न पत्र -

प्रश्न पत्र का नाम :-.....

परीक्षा का दिनांक:-..... दिन:-.....

परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये प्रश्नों की संख्या :-

मुख्य परीक्षा		सेमेस्टर परीक्षा	
प्रश्न क्रमांक	प्राप्तांक (अंको में)	प्रश्न क्रमांक	प्राप्तांक (अंको में)
1		खण्ड "अ"/SECTION "A"	1
2			2
3			
4		खण्ड "ब"/SECTION "B"	3
5			4
6			5
7			6
8			7
9			8
10			
योग प्राप्तांक (अंको में)		योग प्राप्तांक (अंको में)	
प्राप्तांक (शब्दों में)		प्राप्तांक (शब्दों में)	
पूर्णांक		पूर्णांक	

प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं दिनांक.....
 नोट:- प्राप्तकर्ता अधिकारी, परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में अंकित कक्षा, अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, विषय एवं प्रश्न पत्र का मिलान कर ही हस्ताक्षर करें।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भरे द्वारा किया गया है एवं अंक भी भरे द्वारा ही भरे गये हैं।

परीक्षक का हस्ताक्षर, नाम एवं दिनांक-.....

चेकर का हस्ताक्षर-.....